



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)  
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 10, 1982/भाद्र 19, 1904

No. 268]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 10, 1982/BHADRA 19, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1982

अधिसूचना

सं. 210/82-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 560(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संग्रह अथवा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक अथवा द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं को प्रदाय किए जाने वाले माल के विनिर्माण के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री और संघटकों को, जब उनका भारत में आयात किया जाए, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1957 (1957 का 51) की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट उद्देश्य पर उद्ग्रहणीय सम्पत्ति शीमाशुल्क से और द्वितीय निर्णित अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्देश्य पर उद्ग्रहणीय सम्पत्ति निरिक्त शुल्क से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहने हुए छूट देती है, अर्थात्—

- (1) आयातकर्ता को पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए कच्ची सामग्री और संघटकों के आयात के लिए या उनकी निर्यात के लिए आयात (निर्दिष्ट) आदेश,

1955 में यथाविनिर्दिष्ट अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित व्यवस्थापक अभिकरण पर आवश्यक आयात अनुज्ञप्ति या नियुक्ति आदेश मार किया गया है ;

- (2) आयात अनुज्ञप्ति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पृष्ठांक अंतर्निहित है :—

(क) उक्त अनुज्ञप्ति के अधीन आयात के लिए अनुज्ञात कच्ची सामग्री और संघटकों का वर्णन, मात्रा और मूल्य ;

(ख) शुल्क मुक्त आयात के लिए अनुज्ञात कच्ची सामग्री और संघटकों का वर्णन और मात्रा ; और

(ग) आयातित सामग्री से या उनकी सहायता से विनिर्मित किए जाने वाले माल का वर्णन और मात्रा ।

- (3) आयातकर्ता इस अधिसूचना में बताई गई बाध्यताओं और शर्तों को पूरा करने और उक्त कच्ची सामग्री और संघटकों पर जिनके बारे में अनुज्ञापन प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह भावित नहीं किया गया है कि उनका पक्षोक्त प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है, उद्देश्य के बराबर रकम की मांग किए जाने पर संदाय करने के लिए आने वाले अपने-आपने प्रत्येक

में और ऐसी राशि के लिए आबद्ध करते हुए एक बंधपत्र निष्पादित करता है जो उक्त अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा दिनिदिष्ट की जाए।

- (4) आयातकर्ता, सीमाशुल्क की दायित्व का निर्वाहन करने के प्रयोजन के लिए और साथ ही उक्त अनुज्ञापन के संबंध में बाध्यताओं का निर्वाहन करने के लिए उक्त अनुज्ञापन प्राधिकारी के सम-आश्रय रूप में माध्य प्रस्तुत करता है।

2. यह अधिसूचना 10 सितम्बर, 1987 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[फा. सं. 355/67/82-सी.श. 1]

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 10th September, 1982

### NOTIFICATION

No. 210/82-CUSTOMS

**G.S.R. 560(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts raw materials and components required for the manufacture of goods to be supplied to International Development Association or International Bank for Reconstruction and Development or Bilateral or Multilateral aided projects, when imported into India, from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act subject to the following conditions, namely:—

- (1) that the importer has been granted necessary import licence or release order on the concerned canalising agency by the licensing authority as specified in the Import (Control) Order, 1955 for the import or release of raw materials and components for the aforesaid purpose;
- (2) that the import licence contains the following endorsements *inter-alia*:—
  - (a) the description, quantity and value of raw materials and components allowed to be imported under the said licence;
  - (b) the description and quantity of raw materials and components allowed to be imported duty free; and
  - (c) the description and quantity of goods to be manufactured out of, or with, the imported materials.

(3) that the importer executes a bond in such form and for such sum as may be specified by the said licensing authority binding himself to fulfill the obligations and conditions stipulated in this notification and to pay on demand, an amount equal to the duty leviable on the said raw materials and components as are not proved to the satisfaction of the said licensing authority to have been used for the aforesaid purpose; and

(4) that the importer produces evidence to the satisfaction of the said licensing authority, for the purpose of discharging the liability in respect of customs duty as well as for discharging the obligations against the said licence.

2 This notification shall be in force upto and inclusive of the 10th September, 1987

[F. No. 355/67/82-Cus. 1]

### सं. 211/82-सीमाशुल्क

सा. फा. नि. 561(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1982 (1982 का 14) की धारा 44 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकाहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 136-सीमाशुल्क, तारीख 11 मई, 1982 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अगुची में क्रम सं. 215 और उसमें संशोधित परिशिष्टों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“216 सं. 210-सीमाशुल्क तारीख 10 सितम्बर, 1982”।

[फा. सं. 355/67/82-सीमाशुल्क 1]

जं. वी. नागरकर, उच्च सचिव

### No. 211/82-CUSTOMS

**G.S.R. 561(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with sub-section (4) of section 44 of the Finance Act, 1982 (14 of 1982), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 136-Customs, dated the 11th May, 1982, namely:—

In the Schedule to the said notification, after Serial No 215 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

“216 No. 210-Customs, dated the 10th September, 1982”.

[F. No. 355/67/82-Cus. 1]

Z B. NAGARKAR, Under Secy.